



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2001/पौष 10, 1923

No. 42]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2001/PAUSA 10, 1923

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2001

आ.अ. 55(अ).—यतः, तमिलनाडु राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित श्री जी. के. मूपनार का राज्य सभा में स्थान, उनकी पदार्वाध जो 29 जून, 2004 को सम्मिलित करते हुए उस तारीख तक थी, के समाप्त हो जाने से पूर्व उनकी मृत्यु हो जाने के कारण 30 अगस्त, 2001 को रिक्त हो गया है, और

और, यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप निर्वाचन कराया जाता है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा (अ) तमिलनाडु राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 21 जनवरी, 2002 (सोमवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें,

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में :—

- | | |
|---|------------------------------|
| (क) नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख | 7 जनवरी, 2002 (सोमवार) |
| (ख) नामनिर्देशनों की संपीक्षा की तारीख | 8 जनवरी, 2002 (मंगलवार) |
| (ग) अभ्यर्थाएं वापस लेने की अंतिम तारीख | 10 जनवरी, 2002 (बृहस्पतिवार) |
| (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा | 17 जनवरी, 2002 (बृहस्पतिवार) |
| (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन पूरा कर लिया नियत करता है, और | 21 जनवरी, 2002 (सोमवार) |

(इ) 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विभिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

[सं. 100/रा.स.-त.ना./2/2001(1)]

आदेश से,

शरन पाल सिंह, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2001

O. N. 55(E).—Whereas, the seat of Shri G. K. Moopanar in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Tamil Nadu, has become vacant on 30th August, 2001, by the reason of his death, before the expiration of his term of office which was upto and including the 29th June, 2004; and

Whereas, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

Now, therefore, in pursuance of section 147, sub-section (1) of section 39 and section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby —

(A) **calls upon** the elected members of the Legislative Assembly of the State of Tamil Nadu to elect, before **21st January, 2002 (Monday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;

(B) **appoints**, with respect to the said election,—

- (a) the 7th January, 2002 (Monday), as the last date for making nominations;
- (b) the 8th January, 2002 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations,
- (c) the 10th January, 2002 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 17th January, 2002 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 21st January, 2002 (Monday), as the date before which the election shall be completed, and

(C) **fixes the hours** from **9.00 A.M. to 4.00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

[No. 100/CS-TN/2/2001(1)]

By order,

SHARAN PAL SINGH, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2001

आ.अ. 56(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, तमिलनाडु राज्य की सरकार के परामर्श से, एतद्वारा भारत के राजपत्र में 31 दिसम्बर, 2001 को प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए उस राज्य में होने वाले उप-निर्वाचन के सम्बन्ध में :

(i) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है, और

(ii) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर की उनके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए महायुक्त रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है :—

सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)
सचिव, तमिलनाडु विधान सभा सचिवालय	संयुक्त सचिव, तमिलनाडु विधान सभा सचिवालय

[सं. 100/रा.स.-त.ना./2/2001(2)]

आदेश से,

शरन पाल सिंह, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2001

O.N. 56(E).—In pursuance of section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of the State of Tamil Nadu, hereby—

(i) designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be the Returning Officer, and

(ii) appoints the officer, specified in column (2) of the said Table, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions,

in respect of the bye-election to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the Commission's notification, published in the Gazette of India on 31st December, 2001

TABLE

Officer Designated as Returning Officer	Officer Appointed as Assistant Returning Officer
(1)	(2)
Secretary, Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat	Joint Secretary, Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat

[No 100/CS-TN/2/2001 (2)]

By Order,

SHARAN PAL SINGH, Secy

